



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2003/पौष 9, 1925

No. 625]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2003/PAUSA 9, 1925

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2003

सा.का.नि. 972(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश सं03) की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कर अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2003 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
  - (क) "कर्मचारी" से अधिकरण का कर्मचारी अभिप्रेत है;
  - (ख) "अधिकारी" से अधिकरण का अधिकारी अभिप्रेत है;
  - (ग) "अधिकरण" से राष्ट्रीय कर अधिकरण अध्यादेश, 2003 (2003 का अध्यादेश सं0 3) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कर अधिकरण अभिप्रेत है।

3. **अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी** - अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्ग तथा उससे संबद्ध वेतनमान, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में निविर्दिष्ट रूप में होंगे ।

4. **सेवा की शर्तें** - वेतन, भत्ते, छुट्टी, कार्य ग्रहण अवधि, कार्य ग्रहण अवधि वेतन, भविष्य निधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे, चिकित्सीय सुविधाएं तथा सेवा की अन्य शर्तों के मामले में अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं जो तत्समान वेतनमान आहरित करते हैं तथा उसी स्थान पर तैनात हैं ।

**अनुसूची  
(नियम 3 देखें)**

क्रम सं०	पद का नाम	वेतनमान
<b>क</b>	<b>अधिकारी</b>	
1.	रजिस्ट्रार	12,000-375-16,500 ₹
2.	उप रजिस्ट्रार	10,000-325-15,200 ₹
3.	सहायक रजिस्ट्रार	7,450-225-11,500 ₹
4.	निजी सचिव	6,500-200-10,500 ₹
<b>ख</b>	<b>अन्य कर्मचारी</b>	
5.	वैयक्तिक सहायक	5,500-175-9,000 ₹
6.	प्रधान लिपिक	5,500-175-9,000 ₹
7.	उच्च श्रेणी लिपिक	4,000-100-6000 ₹
8.	अवर श्रेणी लिपिक	3050-75-3950-80-4590 ₹
9.	बेच लिपिक	3050-75-3950-80-4590 ₹
10.	चतुर्थ श्रेणी	2610-60-2910-65-3300-70-4000 ₹/ 2550-55-2660-60-3200 ₹
11.	ड्राइवर	3050-75-3950-80-4590 ₹

[फा. सं. ए. 11012/1/2003-प्रशा.-III (वि.का.)]

डी. आर. मीना, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2003

**G.S.R. 972(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 28 of the National Tax Tribunal Ordinance, 2003 (Ordinance 3 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement :** (1) These rules may be called the National Tax Tribunal (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Officers and Employees) Rules, 2003.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions :-** In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "employees" means the employees of the Tribunal ;
  - (b) "officers" means the officers of the Tribunal ;
  - (c) "Tribunal" means the National Tax Tribunal established under section 3 of the National Tax Tribunal Ordinance, 2003 (Ordinance 3 of 2003)
3. **Officers and other employees of the Tribunal:-** The nature and categories of officers and employees of the Tribunal and the scales of pay attached thereto shall be as specified in the Schedule annexed to these rules.
4. **Conditions of service :-** The conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal in the matter of pay, allowances, leave joining time, joining time pay, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A', Group 'B', Group 'C' or Group 'D', as the case may be, and drawing the corresponding scales of pay and posted at the same station.

**SCHEDULE**

[see rule 3]

Serial number	Name of Post	Scale of pay
<b>A.</b>	<b>Officers</b>	
1.	Registrar	Rs. 12,000-375-16,500
2.	Deputy Registrar	Rs. 10,000-325-15,200
3.	Assistant Registrar	Rs. 7,450-225-11,500
4.	Private Secretary	Rs. 6500-200-10,500
<b>B.</b>	<b>Other employees:</b>	
5.	Personal Assistant	Rs. 5,500-175-9000
6.	Head Clerk	Rs. 5500-175-9000
7.	Upper Division Clerk	Rs. 4000-100-6000
8.	Lower Division Clerk	Rs. 3050-75-3950-80-4590
9.	Bench Clerk	Rs. 3050-75-3950-80-4590
10.	Group D	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000/Rs. 2550-55-2660-60-3200
11.	Driver	Rs. 3050-75-3950-80-4590

[F. No. A. 11012/1/2003-Admn.-III-(LA)]

D. R. Meena, Jt. Secy. and Legal Adviser